



100112 - यदि मसह की अवधि समाप्त हो जाए या ऊपर का मोजा निकाल दे तो क्या वुजू टूट जायेगा ?

प्रश्न

यदि मुझे नमाज़ के अंदर याद आ जाए कि मोजे पर मसह करने की अवधि समाप्त हो गई है, तो मैं क्या करूँ ? क्या मैं नमाज़ से बाहर निकल जाऊँ और क्या यदि मैं वुजू की हालत में मोजे के नीचे जुराब पहन लूँ फिर मैं मोजा उतार दूँ और जुराब पहने रहूँ तो क्या मेरा वुजू टूट जायेगा या मैं तहारत पर बाक़ी रहूँगा ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

सर्व प्रथम :

यदि मोजों पर मसह की अवधि समाप्त हो जाए और आप तहारत की हालत में हों, तो राजेह कथन के अनुसार जिसे विद्वानों के एक समूह ने चयन किया है, जिनमें इब्ने हज़्म और शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिय्या रहिमहुल्लाह शामिल हैं, आपकी तहारत समाप्त नहीं होगी ; क्योंकि तहारत के टूटने की कोई दलील नहीं है, बल्कि तहारत (पवित्रता) सर्वज्ञात वुजू तोड़ने वाली चीज़ों से ही समाप्त होती है जैसे हवा खारिज होना। तथा प्रश्न संख्या (69829) देखिए।

इस आधार पर, यदि अवधि समाप्त हो गई और आप नमाज़ के अंदर हैं, तो आप नमाज़ को जारी रखें और जितनी चाहें नमाज़ पढ़ें यहाँ तक कि आप का वुजू टूट जाए।

दूसरा :

यदि इंसान मोजा या जुराब को उन पर मसह करने के बाद उतार दे तो विद्वानों के सही कथन के अनुसार आपकी तहारत अमान्य नहीं होगी, क्योंकि जब आदमी ने मोजे पर मसह कर लिया तो शरई दलील के तकाज़े के अनुसार उसकी तहारत मुकम्मल हो गई। फिर यदि उसने उसे निकाल दिया तो शरई प्रमाण के अनुसार साबित यह तहारत किसी दूसरे शरई प्रमाण के द्वारा ही समाप्त हो सकती है। और इस बात पर कोई प्रमाण मौजूद नहीं है कि मसह किए गए मोजे या जुराब को निकाल देना वुजू को तोड़ देता है। इस आधार पर उसका वुजू बाक़ी रहेगा, और इसी को शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिय्या और विद्वानों के एक समूह ने चयन किया है। देखिए : “मजमूओ फतावा शैखिल इस्लाम इब्ने तैमिय्या” (21/179, 215) तथा मजमूओ



“फतावा व रसाईल शैख इब्ने उसैमीन” (11/179).

मोज़ा उतारने पर मसह का समाप्त होना निष्कर्षित होता है, अर्थात् उसके लिए उसे पुनः पहनने और उसके ऊपर मसह करने की अनुमति नहीं है यहाँ तक कि वह मुकम्मल वुज़ू कर ले जिसमें अपने पैरों को धुला हो।